



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (I)

PART II—Section 3—Sub-section (I)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 97]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 1981/फाल्गुन 29, 1902

No. 97]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 1981/PHALGUNA 29, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1981

सां०कां० 187 (ख)—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 के साथ पठित धारा 58-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके, कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) संशोधन नियम, 1981 है।

(2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 1 अप्रैल, 1981 में कम्पनी (निक्षेपों का प्रतिग्रहण) नियम, 1975 (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (4) में "जहां पूर्ववर्ती कम्पनी ने कोई वाणिज्यिक उत्पादन नहीं किया है और जनता में कोई निक्षेप प्रतिगृहीत नहीं किया है" शब्दों का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 3 के उपनियम (1) के परन्तुक में, "निक्षेप" शब्द के स्थान पर "उपनियम (2) के खण्ड (1) में निर्दिष्ट ऐसे निक्षेप का" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम के नियम 3 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ग) कोई भी कम्पनी, पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक व्याज की दर पर कोई निक्षेप किसी रूप में आमंत्रित नहीं करेगी या प्रतिगृहीत नहीं करेगी या नवीकृत नहीं करेगी,

(घ) कोई भी कम्पनी किसी दयालु को, ऐसे बन्धन द्वारा या उसके माध्यम से संगृहीत निक्षेपों के एक प्रतिशत से अधिक दर पर उन अवधियों को, जिनके लिए निक्षेप प्रतिगृहीत किए गए हैं, विचार में लिए बिना, दलासी का संशय नहीं करेगी।"

5 1 अप्रैल, 1981 से, नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"(2) कोई कम्पनी—

(i) अप्रतिभूत डिबेंचर के अथवा शेयरधारक के किसी निक्षेप के मद्दे (जो किसी प्राइवेट कम्पनी द्वारा उसके शेयर धारकों से प्रतिगृहीत किया गया निक्षेप नहीं है) किसी निक्षेप का अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारण्टीकृत किसी निक्षेप का, जो व्यक्ति ऐसी गारण्टी करते समय कम्पनी का निवेशक है, प्रतिग्रहण नहीं करेगी यदि किसी ऐसे निक्षेप की रकम इस खण्ड में निर्दिष्ट प्रकार के सभी या किसी निक्षेपों को सम्मिलित करके, जो ऐसे निक्षेप के प्रतिग्रहण या पुनर्नवीकरण की तारीख को परादेय हो, कम्पनी की समावत शेयर पूंजी और मुक्त धारकियों के कुल योग के दस प्रतिशत (नियम

3 के उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन प्रतिगृहीत किसी निक्षेप को सम्मिलित करके) से अधिक है :

परन्तु यह कि ऐसे प्रतिग्रहण या पुनर्नवीकरण की तारीख को परादेय निक्षेपों की रकम का गणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गारंटीकृत कोई निक्षेप, जो व्यक्ति ऐसी गारंटी करने समय कम्पनी का प्रबंध अधिकर्ता अथवा सचिव और कोषपाल तथा, और जो निक्षेप ऐसी तारीख पर परादेय हो, गणना में लिए जाएंगे।

- (ii) किसी अन्य निक्षेप का प्रतिग्रहण नहीं करेगी यदि ऐसे निक्षेप की उमर के प्रतिग्रहण या पुनर्नवीकरण की तारीख को परादेय रकम ऐसे अन्य निक्षेप [खण्ड (1) में निर्दिष्ट किन्हीं निक्षेपों से भिन्न] की रकम को मिलाकर कम्पनी की समावत शेयर-पूँजी और मुक्त आरक्षितियों के कुल योग के पन्चोस प्रतिशत से अधिक है।

6 1 अप्रैल 1981 से, उक्त नियम से उपायद्ध प्ररूप में,—

(क) भाग क में—

- (1) मद I और II और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मदें और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“1. नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप—

(क) पूर्ववर्ती प्रबंध अधिकर्ताओं या सचिवों या कोषपालों द्वारा गारंटीकृत निक्षेप जो श्रृणों के रूप में प्राप्त किए गए हो।

(ख) अप्रतिभूत डिबेंचर।

(ग) ऐसे निक्षेप जिसमें शेयर धारकों से (जिसमें प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के शेयर धारक नहीं हैं) प्राप्त अप्रतिभूत श्रृण सम्मिलित हैं, किन्तु निदेशकों से प्राप्त श्रृणों को छोड़कर।

(घ) ऐसे निक्षेप जिसमें निदेशकों द्वारा अपनी वैयक्तिक श्रेयधन में गारंटीकृत श्रृण सम्मिलित हैं।

(ङ) कुल योग (क+ख+ग+घ)

II. नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (ii) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप।

(च) नियम निक्षेप+

(छ) कोई अन्य निक्षेप+

(ज) कुल योग (च+छ)

(ख) भाग ख में,—

(क) मद 1 में, “नियम 3 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निक्षेप” शब्दों, अंक और कोष्ठक के स्थान पर “नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (i) के अन्तर्गत निक्षेप” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) मद 2 में,—

“नियम 3 के उपनियम (2) के अन्तर्गत निक्षेप” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर “नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत निक्षेप”, शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) भाग ग में,—

(क) मद 1 में, “नियम 3 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत निक्षेप” शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, “नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (1) के अन्तर्गत निक्षेप” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ख) मद II में, “नियम 3 के उपनियम (2) के अन्तर्गत निक्षेप” शब्दों, अंक और कोष्ठक के स्थान पर “नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के अन्तर्गत निक्षेप” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) “व्याज की दर” से संबंधित स्तम्भ के नीचे, मद I, II और III में,—

(i) क्रम संख्यांक 6 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर “15 प्रतिशत” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम संख्यांक 6 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—
“7. 15 प्रतिशत से अधिक”;

(iii) क्रम संख्यांक 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् “1 से 6 तक का योग” अंकों और शब्दों के स्थान पर “1 से 7 तक का योग” शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(घ) “प्रबंधक का प्रमाणपत्र” प्रविष्टि के पूर्व निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जायगा, अर्थात् :—

“क्रम संख्यांक 7 की मध की बाबत टिप्पण 20-3-1981 से पूर्व आमंत्रित या प्रतिगृहीत या नवीकृत निक्षेपों की बाबत।”

7. प्रबंधक का प्रमाणपत्र में,—

(क) “प्रबंधक का प्रमाणपत्र” शब्दों के नीचे प्रमाणपत्र को 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायगा;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रबंधक का प्रमाणपत्र में, “नियम 3 के उपनियम (1) के प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप” शब्दों, अंक और कोष्ठक के स्थान पर “नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (i) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ग) “नियम 3 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप” शब्दों अंक और कोष्ठक के स्थान पर “नियम 3 के उपनियम (2) के खण्ड (ii) के निर्दिष्ट प्रकार के निक्षेप” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(घ) इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रमाणपत्र 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रमाणपत्र और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“2. प्रमाणित किया जाता है कि 20-3-1981 को और उस तारीख से प्रतिगृहीत किए गए निक्षेपों पर दलाशी की दर निम्नलिखित थी”,

(ङ) इस प्रकार अन्तःस्थापित प्रमाणपत्र 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रमाणपत्र और प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“3. प्रमाणित किया जाता है कि 20-3-1981 का और उस तारीख से प्रतिगृहीत किए गए निक्षेपों पर व्याज और दलाशी की दर इन नियमों में विहित सीमा से अधिक नहीं हुई है।”

[सं० 4/8/81—सी एल० 10]

एस० पी० गांगुली, निदेशक

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th March, 1981

G.S.R. 187(E).—In exercise of the powers conferred by section 58A read with section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975, namely :—

- 1 (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 1981.
- (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. With effect from the 1st day of April, 1981, in rule 2, in sub-rule (b), in clause (iv), of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the said rules), the words "where the former company has not gone into commercial production and has not accepted any deposits from the public" shall be omitted.
- 3 In rule 3 of the said rules, in the proviso to sub-rule (1), for the word "deposits" the words, figures and brackets "such deposits as are referred to in clause (i) of sub-rule (2)" shall be substituted.
4. After the second proviso to sub-rule (1) of rule 3 of the said rules, the following sub-clause shall be inserted, namely :—
 - "(c) no company shall invite or accept or renew any deposits in any form, on a rate of interest exceeding fifteen per cent per annum ;
 - (d) no company shall pay brokerage to any broker at a rate exceeding one per cent of the deposits collected by or through such broker irrespective of the periods for which deposits are accepted."
5. With effect from the 1st day of April, 1981, in rule 3, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) No company shall accept —

- (i) any deposit against an unsecured debenture or any deposit from a shareholder (not being a deposit accepted by a private company from its shareholders) or any deposit guaranteed by any person who, at the time of giving such guarantee is a director of the company if the amount of any such deposit together with the amount of such other deposits of all or any of the kinds of deposits referred to in this clause and outstanding on the date of acceptance or renewal of such deposit, exceeds ten per cent, [including any deposit accepted under the proviso to sub-rule (1) of rule (3)] of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves of the company ;

Provided that for the purpose of calculation of the amount of deposits outstanding on the date of such acceptance or renewal, any deposit guaranteed by a person who, at the time of giving such guarantee, was the managing agent or secretaries and treasurers of the company, and outstanding on such date shall be taken into account ;

- (ii) any other deposit, if the amount of such deposit together with the amount of such other deposit other than any of the deposits referred to in clause (i) outstanding on the date of acceptance or renewal, exceeds twenty-five per cent of the aggregate of the paid-up share capital and free reserves of the company."

6. With effect from the 1st day of April, 1981, in the Form annexed to the said rules, —

(a) In Part A —

- (i) for items I and II and the entries relating thereto, the following items and entries shall be substituted, namely :—

"I. Deposits of the kind referred to in clause (i) of sub-rule (2) of rule 3 —

(a) deposits received in the form of loans guaranteed by the former managing agents or secretaries and treasurers.

(b) unsecured debenture(s).

(c) deposits including unsecured loans received from share-holders (not being share-holders of private limited company) but excluding those received from directors.

(d) deposits including unsecured loans guaranteed by directors in their personal capacity.

(e) Total (a+b+c+d) —————

II. Deposits of the kind referred to in clause (ii) of sub-rule (2) of rule 3.

(f) fixed deposits.

(g) any other deposits —————

(h) Total (f+g) ————— ;

- (ii) in item III, for sub-item (1), the following sub-item shall be substituted, namely :—

"any amount received by a company from any other company."

(b) In part B, —

- (a) in item I, for the words, figures and brackets "deposits covered by the first proviso to sub-rule (1) of rule 3", the words, figures and brackets "deposits covered by clause (i) of sub-rule (2) of rule 3" shall be substituted ;

b) in item II, —

for the words, figures and brackets "deposits covered by sub-rule (2) of rule 3", the words, figures and brackets "deposits covered by clause (ii) of sub-rule (2) of rule 3" shall be substituted;

(c) In Part C, —

- (a) in item I, for the words, figures and bracket "deposits covered by the first proviso to sub-rule (1) of rule 3", the words, figures and brackets "deposits covered by clause (i) of sub-rule (2) of rule 3", shall be substituted ;

- (b) in item II, for the words, figures and brackets "deposits covered by sub-rule (2) of rule 3", the words, figures and brackets "Deposits covered by clause (ii) of sub-rule (2) of rule 3", shall be substituted ;

- (c) below the column relating to "rate of interest" in items I, II and III, —

- (i) for the entry against serial number 6, the entry "At 15%" shall be substituted ;

- (ii) after serial number 6 and the entry relating thereto, following serial number and entry shall be substituted, namely :—

"7. More than 15%"

- (iii) after serial number 7 and entries relating thereto, for the words and figures "Total 1 to 6", the words and figures "Total of 1 to 7", shall be substituted ;

- (d) Before the entry "Manager's Certificate", the following Note shall be inserted, namely :—

"Note in respect of item at Serial number 7 —in respect of deposits invited or accepted or renewed prior to 20-3-1981.

7. In the Manager's Certificate, —

- (a) the certificate below the words "Manager's Certificate" shall be re-numbered as 1 ;
- (b) in the Manager's certificate so re-numbered, for the words, figures and brackets "Deposits of the kind referred to in the first proviso to sub-rule (1) of rule 3" the words, figures and brackets "Deposits of the kind referred to in clause (1) of sub-rule (2) of rule 3", shall be substituted ;
- (c) for the words, figures and brackets "Deposits of kinds referred to in sub-rule (2) of rule 3" the words figures and brackets "Deposits of the kinds referred to in clause (ii) of sub-rule (2) of rule 3", shall be substituted ;
- (d) after certificate 1 as so renumbered the following certificate and entry shall be inserted, namely :—
 - "2. Certified that the rates of brokerage on deposits accepted on and from 20-3-1981 were as follows" ;
- (e) after certificate 2 as so inserted the following certificate and entry shall be inserted, namely :—
 - "3. Certified that the rates of interest and brokerage on deposits accepted on and from 20-3-1981 have not exceeded the limits prescribed in these rules."

[No. 4/8/81-CL. X]

S. P. GANGULY, Director